



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2600]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2013/कार्तिक 23, 1935

No. 2600]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2013/KARTIKA 23, 1935

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2013

सं. 51(आर. ई.-2013)/2009-2014

विषय :- अग्रिम प्राधिकार के तहत तथा ईओयू द्वारा निर्यात हेतु ऐसी मद के निर्यात की अनुमति के लिए, जिनका निर्यात अन्यथा निषिद्ध है, विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.1.13 (क) और 6.2 (क) (i) में संशोधन।

का. आ. 3441(अ).—विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) यथासंशोधित, की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, विदेश व्यापार नीति 2009-2014 (संशोधित संस्करण-2012) के पैरा 4.1.13 (क) तथा 6.2 (क) (i) में संशोधन करती है।

2. संशोधित पैराग्राफ निम्न प्रकार पढ़े जाएंगे (सुलभ संदर्भ हेतु पैराग्राफों के अंत में जोड़े जा रहे नए शब्द/वाक्य रेखांकित किए जा रहे हैं)।

(1) पैरा 4.1.13 (क)

यदि किसी मद का क्रमशः आयात अथवा निर्यात निषिद्ध है तो अग्रिम प्राधिकार/डीएफआईए के अंतर्गत उस मद का आयात अथवा निर्यात अनुमेष नहीं होगा। निषिद्ध मदों के निर्यात की अग्रिम प्राधिकार के तहत अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते उसमें दी गई शर्तों के अधीन उसे इस प्रकार अलग से अधिसूचित किया जाए।

(2) पैरा 6.2 (क) (i)

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकती है, सिवाय उन मदों के जो आईटीसी (एचएस) में निषिद्ध हैं। विशेष रसायन, जैविक, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकियों (स्कोमैट) का निर्यात आईटीसी (एचएस) में उल्लिखित शर्तें पूरी करने के अधीन होगा। ईओयू के मामले में, बीओए द्वारा किसी निषिद्ध मद को निर्यात करने की अनुमति देने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते ऐसे कच्चे माल का आयात किया जाए और डीटीए से ऐसे कच्चे माल का कोई प्रापण न हो।

इस अधिसूचना का प्रभाव : कुछ विशेष मदों के निर्यात के लिए, जिनका निर्यात निषिद्ध है, विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, अग्रिम प्राधिकार स्कीम के तहत अनुमति दी जा सकती है। बीओए ईओयू से किसी निषिद्ध मद के निर्यात हेतु अनुरोध पर विचार कर सकता है।

[फा. सं. 01/94/180/51/एम 14/पीसी-4]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2013

No. 51 (RE-2013)/2009-2014

Subject : Amendment of paragraphs 4.1.13(a) and 6.2(a)(i) of FTP to permit export of an item which is otherwise prohibited for export, under Advance Authorisation and by EOUs.

S.O. 3441(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, the Central Government hereby amends paragraphs 4.1.13(a) and 6.2 (a)(i) of the FTP 2009-2014 (RE-2012).

2. The amended paragraphs will read as under (new words/sentence being added at the end of the para are in bold letters for easy reference) :

(i) Para 4.1.13(a) :

*No export or import of an item shall be allowed under Advance Authorisation/DFIA if the item is prohibited for exports or imports respectively. **Export of a prohibited item may be allowed under Advance Authorisation provided it is separately so notified subject to the conditions given therein.***

(ii) Para 6.2(a)(i)

*An EOU / EHTP/STP/BTP unit may export all kinds of goods and services except items that are prohibited in ITC (HS). Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) shall be subject to fulfillment of the conditions indicated in ITC (HS). **In respect of an EOU, permission to export a prohibited item may be considered, by BOA, provided such raw materials are imported and there is no procurement of such raw material from DTA.***

Effect of this Notification : Certain items which are prohibited for export may be allowed for export under advance authorization scheme, subject to stipulated conditions. BOA can consider requests for export of a prohibited item from an EOU.

[F. No. 01/ 94/180 /51/AM 14/PC-4)]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade